



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 भाद्र 1936 (श0)
(सं0 पटना 737) पटना, मंगलवार, 9 सितम्बर 2014

सं0 03/विविध 19-11/2013-2212/न0वि0एवंआ0वि0
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

5 सितम्बर 2014

विषय:- JnNURM योजना के अधीन शहरी स्थानीय निकायों एवं राज्य स्तर पर क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं उस पर संभावित व्यय रु0 4021.77 लाख (चालीस करोड़ इक्कीस लाख सतहत्तर हजार रुपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति।

बिहार राज्य में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (JnNURM) कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शहरी आधारभूत संरचना एवं शासन (UIG) की 10, छोटे एवं मझोले शहरों के लिए शहरी आधारभूत संरचना विकास (UIDSSMT) की 11 योजनाएं एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा बिहार राज्य के लिए समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (IHSDP) की 32 परियोजनाएं एवं शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (BSUP) की 18 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के उपरान्त सृजित आवासीय एवं आधारभूत संरचनाओं के सफल संचालन हेतु राज्य एवं शहरी निकाय स्तर पर कार्मिकों के क्षमता वर्द्धन हेतु प्रशिक्षण आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा उक्त योजनाओं की स्वीकृति से पूर्व राज्य सरकारों को कुछ **Reforms** कार्यक्रम लागू करने की शर्तें रखी गई हैं। इन **Reforms** कार्यक्रम को लागू करने हेतु भी निकायों का क्षमता संवर्द्धन प्रशिक्षण आवश्यक हो जाता है। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण शहरी स्थानीय निकाय अपने स्तर से क्षमता संवर्द्धन हेतु वित्तीय प्रबन्धन का भार वहन करने में असमर्थ हैं। उक्त आलोक में भारत सरकार के पत्रांक-K-14012/2(127)/2006-NURM-III दिनांक 14.10.2013 द्वारा क्षमता संवर्द्धन हेतु रु0 4021.77 लाख राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस योजना का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर व्यवस्थित एवं व्यापक ढंग से क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम को संस्था का रूप देना है। इसके अधीन स्थानीय निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में **Reforms & Programme Management Cell (RPMC)** पूर्ण श्रमशक्ति के साथ कार्य करेगा। स्थानीय निकाय स्वयं सिटी डेवलपमेंट प्लान, ट्रेनिंग प्लान तथा कैलेंडर इत्यादि तैयार करने में सक्षम हो सकेंगे।

2. क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम के अधीन 10 शहरों में **Reforms & Programme Management Cell (RPMC)** का गठन एवं क्षमता संवर्द्धन के अन्य कार्यक्रम प्रस्तावित है। ये नगर हैं:- मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार

शरीफ, मुंगेर, बेगुसराय, पूर्णिया, आरा, कटिहार, छपरा एवं दानापुर। यह योजना वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 तक कुल चार चरणों में पूरी होगी।

क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम दो स्तर पर प्रस्तावित है :-

(क) शहरी निकाय स्तर पर (ख) राज्य स्तर पर

(i) शहरी स्तर पर क्षमता वर्द्धन कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी निकाय के प्रबन्धन क्षमता का सुदृढीकरण करना है।

(ii) राज्य स्तर पर क्षमता वर्द्धन का उद्देश्य राज्य स्तर पर एक ऐसा **Supporting Structure तथा Mechanism** सृजित करना है जो शहरी निकायों के क्षमता वर्द्धन में सहायक हो।

सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार के पत्रांक 3/विविध-19-11/13 1406(ए) दिनांक 05.08.2013 द्वारा क्षमता संवर्द्धन का प्रस्ताव भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने CSMC की 127 वीं बैठक, जो दिनांक 09.10.2013 को आहूत की गई थी, में बिहार में क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु ₹0 4021.77 लाख की योजना की स्वीकृति प्रदान की है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु शत प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रथम किश्त के रूप में वित्त मंत्रालय व्यय विभाग योजना वित्त-I डिविजन भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-F N0- 59 (I) PF-I/2013-1537 दिनांक 20.02.14 द्वारा ₹0 1005.44 लाख विमुक्त की गई है।

3. इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी बिहार शहरी विकास अभिकरण (BUDA) होगी।

4. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 22.07.14 के मद सं0-39 के रूप में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है।

5. अतः JnNURM योजना के अधीन शहरी स्थानीय निकायों एवं राज्य स्तर पर क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं उस पर संभावित व्यय ₹0 4021.77 लाख (चालीस करोड़ इक्कीस लाख सतहत्तर हजार रुपये मात्र) का निर्णय लिया गया है।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संदीप पौण्डरीक,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 737-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>